

भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय
नोडल प्राधिकरण
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली- 110001
टेलीफैक्स: 011-23714842

Email: gbphelpine-mop@nic.in

Website: <http://www.powermin.nic.in/>

निविदा आमंत्रण सूचना

"गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता-चरण I के उपयोग के लिए स्कीम के अंतर्गत विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) सहायता की रिवर्स ऑक्शन हेतु बोलियों का आमंत्रण"

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 27 मार्च, 2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/2/2015-थर्मल-I के माध्यम से वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) 2015-16 और 2016-17 के लिए गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग हेतु स्कीम शुरू की है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोडल प्राधिकरण को दिनांक 01 जून, 2015 से 30 सितंबर, 2015 तक की अवधि के लिए पात्र गैस आधारित संयंत्रों को पीएसडीएफ सहायता की रिवर्स ऑक्शन शुरू करने का निदेश दिया गया है। तदनुसार, तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को सूचीबद्ध करने के लिए पात्र कंपनियों से केवल वास्तविक प्रारूप में तकनीकी बोलियाँ आमंत्रित की जाती हैं। तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेज में दी गई निर्धारित तारीख एवं समय पर आयोजित किए जाने वाले पात्र गैस आधारित संयंत्रों को पीएसडीएफ सहायता के लिए रिवर्स ऑक्शन में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। विस्तृत निविदा दस्तावेज एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट (<http://www.mstc.com>) से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रक्रिया के लिए समयसीमा भी एमएसटीसी की वेबसाइट पर दी गई है।

पीएसडीएफ सहायता तथा उपलब्ध ई-बोली आरएलएनजी का आबंटन केवल पात्र गैस आधारित संयंत्रों द्वारा विद्युत के उत्पादन के उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा, जैसाकि निविदा दस्तावेज में उल्लेख किया गया है। रुचि रखने वाली तथा पात्र कंपनियां उपर्युक्त वेबसाइट पर निविदा दस्तावेज में निर्धारित की गई समयसीमा के अनुसार स्वयं को पंजीकृत कर सकती हैं। सफलतापूर्वक पंजीकरण होने पर, पात्र कंपनियों को निविदा प्रक्रिया में भागीदारी के लिए आवश्यक लॉग-इन आईडी तथा पासवर्ड दिया जाएगा।

बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेज के अनुसार निर्धारित तारीख और समय पर अपनी तकनीकी बोली प्रस्तुत करना आवश्यक है। प्री-बिड कॉन्फ्रेंस का आयोजन 27 अप्रैल 2015 को 11.30 बजे स्कोप कन्वेंशन सेंटर, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में किया जाएगा। प्री-बिड कॉन्फ्रेंस के बारे में विस्तृत नोटिस एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। किसी भी प्रश्न/स्पष्टीकरण के लिए कृपया विज्ञापन में दर्शाए गए उपर्युक्त संपर्क ब्यौरे के अनुसार नोडल प्राधिकारी से संपर्क करें।